



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 नवम्बर, 2020

कार्तिक 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग—1

संख्या 1152/61—2020

लखनऊ, 05 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

यतः, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दी गई संख्याओं के अनुसार, सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के 11 (ग्यारह) सदस्यों के स्थान सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित तारीखों को, उन सदस्यों की पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए थे, और;

यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के और तद्वीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:-

सारणी

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या | सेवानिवृत्ति की तारीख |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| लखनऊ खण्ड स्नातक | 1 | 06.05.2020 |
| वाराणसी खण्ड स्नातक | 1 | |
| आगरा खण्ड स्नातक | 1 | |
| मेरठ खण्ड स्नातक | 1 | |
| इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक | 1 | |
| लखनऊ खण्ड शिक्षक | 1 | |
| वाराणसी खण्ड शिक्षक | 1 | |
| आगरा खण्ड शिक्षक | 1 | |
| मेरठ खण्ड शिक्षक | 1 | |
| बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक | 1 | |
| गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक | 1 | |

आदेश से और राज्यपाल के नाम पर,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1152/LXI-2020, dated November 5, 2020:

No. 1152/LXI-2020

Dated Lucknow, November 5, 2020

WHEREAS, the seat of eleven members of the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh, elected from the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, as per the numbers shown in the corresponding entries in column (2) of the Table, had fallen vacant on the retirement of those members, on the dates mentioned in the corresponding entries in column (3) of the Table, on the expiration of their term of office; and

WHEREAS, Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Uttar Pradesh is hereby pleased to call upon each of the said Council Constituencies, specified in column (1) of the TABLE below, to elect the number of members, specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:-

TABLE

| Name of Constituency | No. of members to be elected | Date of retirement |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Lucknow Division Graduates' | 1 | 06.05.2020 |
| Varanasi Division Graduates' | 1 | |
| Agra Division Graduates' | 1 | |
| Meerut Division Graduates' | 1 | |
| Allahabad-Jhansi Division Graduates' | 1 | |
| Lucknow Division Teachers' | 1 | |
| Varanasi Division Teachers' | 1 | |
| Agra Division Teachers' | 1 | |
| Meerut Division Teachers' | 1 | |
| Bareilly-Moradabad Division Teachers' | 1 | |
| Gorakhpur-Faizabad Division Teachers' | 1 | |

By order and in the name of the Governor,
RAJENDRA KUMAR TIWARI,
Mukhya Sachiv.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

Dated : 5th November, 2020,
Kartika 14, 1942 (Saka),

NOTIFICATION

No.322/UP-LC-G&T/2020: - WHEREAS, the Governor of the State of Uttar Pradesh has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 05th November, 2020, been pleased to call upon each of the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, to elect the number of members specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh:-

TABLE

| Name of Constituency | No. of members to be elected |
|---------------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) |
| Lucknow Division Graduates' | 1 |
| Varanasi Division Graduates' | 1 |
| Agra Division Graduates' | 1 |
| Meerut Division Graduates' | 1 |
| Allahabad-Jhansi Division Graduates' | 1 |
| Lucknow Division Teachers' | 1 |
| Varanasi Division Teachers' | 1 |
| Agra Division Teachers' | 1 |
| Meerut Division Teachers' | 1 |
| Bareilly-Moradabad Division Teachers' | 1 |
| Gorakhpur-Faizabad Division Teachers' | 1 |

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby –

(A) appoints, with respect to the said election in each of the Constituencies, -

(a) the 12th November, 2020 (Thursday), as the last date for making nominations;

(b) the 13th November, 2020 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 17th November, 2020 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 01st December, 2020 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 07th December, 2020 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 08:00 a.m. to 05:00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
*Secretary to the
Election Commission of India.*

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली- 110001

fnukad 5 नवम्बर, 2020

कार्तिक 14, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.322/उ.प्र.-वि.प.-जी&टी/2020 यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 05 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की है कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम (1) | निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या (2) |
|--------------------------------|--|
| लखनऊ खण्ड स्नातक | 1 |
| वाराणसी खण्ड स्नातक | 1 |
| आगरा खण्ड स्नातक | 1 |
| मेरठ खण्ड स्नातक | 1 |
| इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक | 1 |
| लखनऊ खण्ड शिक्षक | 1 |
| वाराणसी खण्ड शिक्षक | 1 |
| आगरा खण्ड शिक्षक | 1 |
| मेरठ खण्ड शिक्षक | 1 |
| बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक | 1 |
| गोरखपुर-कैजाबाद खण्ड शिक्षक | 1 |

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार)
 (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 13 नवम्बर, 2020 (शुक्रवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 17 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार) और
 (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा - 07 दिसम्बर, 2020 (सोमवार) और
 (आ) 08:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके

दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 351 राजपत्र-2020-(820)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 72 सा० निर्वाचन-2020-(821)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।